



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1931 (श0)
(सं0 पटना 512) पटना, बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर 2009

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचनाएं

1 अक्टूबर 2009

एस0ओ0 216 दिनांक 1 अक्टूबर 2009—चूंकि गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या 271/गृ0स0को0, दिनांक 26 फरवरी 2006 द्वारा लोक महत्व के विषय अर्थात् 24वीं अक्टूबर, 1989 से 1990 के बीच भागलपुर एवं इसके इर्द-गिर्द साम्प्रदायिक उपद्रव की न्यायिक जांच के लिए बिहार-राज्यपाल ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 (सं0 60/1952) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जाँच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक 26 फरवरी 2006) से छः महीने के लिए यानि 25 अगस्त 2006 तक निर्धारित की गई थी। इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष एकल सदस्य श्री एन0 एन0 सिंह (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय, पटना हैं। विभागीय अधिसूचना संख्या 43415, दिनांक 20 सितम्बर 2006, 4007, दिनांक 5 अप्रैल 2007, 3005, दिनांक 17 मार्च 2008 एवं 2081, दिनांक 9 अप्रैल 2009 द्वारा आयोग का अवधि विस्तार क्रमशः दिनांक 26 अगस्त 2006 से 25 फरवरी 2007, दिनांक 26 फरवरी 2007 से 25 फरवरी 2008, दिनांक 26 फरवरी 2008 से 25 फरवरी 2009 एवं 26 फरवरी 2009 से 25 अगस्त 2009 तक किया गया था।

2. और चूंकि बिहार-राज्यपाल का समाधान हो गया है कि उपर्युक्त संबंधी कार्य पूरा करने के लिए और छः महीना का समय यानि दिनांक 26 अगस्त 2009 से 25 फरवरी 2010 तक के लिए और समय की आवश्यकता है।

3. अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल न्यायिक जाँच आयोग की अवधि दिनांक 26 अगस्त 2009 से 25 फरवरी 2010 तक बढ़ाते हैं।

(सी0/सी0आई0मिस0-4002/06-7799)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

1 अक्टूबर 2009

एस0ओ0 217, एस0 ओ0 216, दिनांक 1 अक्टूबर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सी0/सी0आई0मिस0-4002/06-7799)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

The 1st October 2009

S.O. 216 dated 1st October 2009—WHEREAS, *vide* Home (Special) Department Notification No.271/HSC, dt. 26th February 2006 the Governor of Bihar was pleased to constitute a Judicial enquiry, Commission for Enquiry into the communal disturbance that had occurred in and around Bhagalpur from 24th October 1989 to 1990 under the commission of enquiry Act, 1952 (No.60, 1952). The term of Commission was fixed from 6th months from the date of Notification i.e. 26th February 2006 to 25th August 2006. The Governor of Bihar was pleased to appoint Shree N. N. Singh (Retd.) Hon'ble Justice to Patna High Court, Patna as its Chairman. The term of Commission was extended *vide* notification Nos. 13415, dt. 20th September 2006, 4007, dt. 5th April 2007, 3005, dt. 17th March 2008 and 2081, dt. 9th April 2009 from dated 26th August 2006 to 25th February 2007, 26th February 2007 to 25th February 2008, 26th February 2008 to 25th February 2009 and 26th February 2009 to 25th August 2009.

2. NOW, the Governor of Bihar is further pleased that in order to complete the enquiry, the Commission requires further extension from 26th August 2009 to 25th February 2010.

3. NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by the Section-3 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to extend the period of commission of Judicial enquiry from 26th August 2009 to 25th February 2010.

(C/C.I.Misc.4002/06—7799)

By order of the Governor of Bihar,

SUNIL KUMAR,

Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 512-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>